

Syllabus and Course Scheme

Academic year 2024-25



Drawing & Painting

Exam.- 2025

UNIVERSITY OF KOTA

**MBS Marg, Swami Vivekanand Nagar,
Kota - 324 005, Rajasthan, India**

Website: uok.ac.in

बी.ए. पार्ट तृतीय-2024

आरेखन एवं रंगांकन

नोट:-यह पाठयक्रम इसी सत्र 2024-25 से मान्य होगा।

योजना

सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र प्रथम : पश्चिमी कला के प्रमुख कला आन्दोलनों का परिचयात्मक अध्ययन
अवधि - 3 घण्टे अधिकतम अंक - 100 न्यूनतम उत्तीर्णांक -36

प्रायोगिक प्रथम पत्र अ-प्रश्न पत्र : जीवन अध्ययन (सम्पूर्ण आकृति)
अवधि - 5 घण्टे अधिकतम अंक - 40 न्यूनतम उत्तीर्णांक -14

अथवा

प्रायोगिक प्रथम-ब प्रश्न पत्र : चित्रों की प्रतिकृति एवं परिवर्धन
अवधि - 5 घण्टे अधिकतम अंक - 40 न्यूनतम उत्तीर्णांक -14

प्रायोगिक द्वितीय प्रश्न पत्र : रचनात्मक संयोजन
अवधि - 5 घण्टे अधिकतम अंक - 40 न्यूनतम उत्तीर्णांक -14

सत्रीय प्रायोगिक कार्य अधिकतम अंक - 20 न्यूनतम उत्तीर्णांक -8
कुल अंक 200 कुल उत्तीर्णांक 72

प्रथम प्रश्न पत्र 1 (सैद्धान्तिक) पश्चिमी कला के प्रमुख कला आन्दोलनों का परिचयात्मक अध्ययन
अवधि - 3 घण्टे अधिकतम अंक - 100 न्यूनतम उत्तीर्णांक -36

परीक्षा योजना :

नोट :- इस प्रश्न पत्र में 03 खण्ड निम्न प्रकार होंगे :

खण्ड अ : इस खण्ड में एक अनिवार्य प्रश्न जिसमें प्रत्येक इकाई से 02 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 लघु प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में हो। कुल अंक :10

खण्ड ब: इस खण्ड में प्रत्येक इकाई से 02 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 05 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में हो। कुल अंक : 50

खण्ड स: इस खण्ड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे (प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं) जो सभी इकाईयों में से दिये जावेगें, किन्तु एक इकाई से एक से अधिक प्रश्न नहीं होंगे। दो प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। कुल अंक : 40

इकाई प्रथम

प्रागैतिहासिक और मिश्र की कला, क्रीट की कला,

इकाई द्वितीय

ग्रीकोरोमन कला, शास्त्रीय कला और इट्रस्कन कला

इकाई तृतीय

बाइजेन्टाईन कला, रोमनस्क कला, गौथिक कला - सिमाबुए, जिओत्तो,

इकाई चतुर्थ

पुनरुत्थान कालीन चित्रकला, राफेल, लियोनार्दो दा विंची, माइकेलएंजिलो, रीतिवाद

इकाई पंचम

बरोक कला - कारावाज्जियों, रुबैन्स, रैम्ब्रा,

रोकोको कला-वात्तो, बूशे,

19 वीं शती के प्रमुख प्रकृति चित्रकार- टर्नर एवं कांस्टेबल

सहायक पुस्तक

1. पाश्चात्य चित्रकला का इतिहास – गिरिराज किशोर अग्रवाल
2. यूरोप की चित्रकला – र. वि. साखलकर

प्रायोगिक प्रथम-अ प्रश्न पत्र : जीवन अध्ययन (सम्पूर्ण आकृति)

परीक्षा अवधि – 5 घण्टे 2.30 घण्टे के दो सत्रों में सम्पन्न होगी। दोनों सत्रों के मध्य 30 मिनट का मध्यान्तर होगा।

अधिकतम अंक : 40

न्यूनतम उत्तीर्णांक – 14

उत्तर पत्र का आकार 1/2 इम्पीरियल

माध्यम :- जलरंग या तेल रंग या मिक्स मीडिया

मॉडल :-पुरुष या स्त्री (20 से 60 वर्ष उम्र के)

परीक्षार्थियों के सम्मुख 20 से 60 वर्ष की उम्र का कोई भी मॉडल (स्त्री या पुरुष) व्यवस्थित किया जावे। जिसकी पृष्ठभूमि में साधारण सिकुड़नों के साथ वस्त्र आच्छादित होना चाहिये। जीवन चित्रण का अध्ययन माध्यम के अनुकूल प्रयोग, सही अनुपातिक आकृति, छाया प्रकाश के यथार्थ प्रभाव को दर्शाते हुए होना चाहिए।

अथवा

प्रायोगिक प्रथम-ब प्रश्न पत्र : (रचनात्मक) चित्रों की प्रतिकृति एवं परिवर्धन

परीक्षा अवधि 5 घण्टे परीक्षा 2.30 घण्टे के दो सत्रों में सम्पन्न होगी दोनों सत्रों के मध्य 30 मिनट का मध्यान्तर होगा।

अधिकतम अंक – 40

न्यूनतम उत्तीर्णांक – 14

उत्तर पत्र का आकार 1/2 इम्पीरियल

माध्यम – जलरंग, तैलरंग या मिश्रित माध्यम जिस माध्यम में संदर्भ चित्र हो

विद्यार्थी संदर्भ की चित्र की प्रतिकृति व संवर्धन ग्रीड विधि द्वारा करेगा। संदर्भ चित्र लघु चित्र अथवा आधुनिक चित्र हो सकता है।

नोट:- संदर्भ चित्र के रंगीन जेरोक्स अथवा स्केन्ड प्रतिलिपि विवरणों (चित्र का आकार व माध्यम) के साथ प्रत्येक व आवश्यक निर्देशों के साथ विद्यार्थी को उपलब्ध करवाई जायेगी।

प्रायोगिक द्वितीय प्रश्न पत्र : रचनात्मक संयोजन

परीक्षा अवधि 5 घण्टे परीक्षा 2.30 घण्टे के दो सत्रों में सम्पन्न होगी दोनों सत्रों के मध्य 30 मिनट का मध्यान्तर होगा।

अधिकतम अंक – 40

न्यूनतम उत्तीर्णांक – 14

उत्तर पत्र का आकार 1/2 इम्पीरियल

माध्यम – जलरंग, तैलरंग

संयोजन दैनिक जीवन से सम्बन्धित किसी भी विषय पर आधारित होना चाहिये। कोई भी महत्वपूर्ण घटना जो हमारे चारों तरफ घटती है उससे सम्बन्धित संयोजन जैसे त्यौहार, मज़दूर, यात्रा, किसान आदि। संयोजन में दो या तीन मानव आकार होने चाहिये। संयोजन पारम्परिक या आधुनिक किसी भी भौली में बनाया जा सकेगा।

नोट:-

अ विषय :- परीक्षक द्वारा पाँच विषय निर्धारित किये जायेंगे। छात्र किसी एक विषय का चयन कर मनपसंद भौली व तकनीक में अपना संयोजन पूर्ण करेगा।

ब :- छात्र किसी एक रंगयोजना का चयन कर चित्र पूर्ण करेगा।

स:- छात्र संयोजन में घनत्व दिखाने हेतु पोत का प्रयोग कर सकेगा।

सत्रीय कार्य प्रस्तुति

1. सत्रीय कार्य प्रत्येक परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा दिनांक घोषित होने के एक माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

2. सत्रीय कार्य : सत्र में किये गये अभ्यास कार्य के दस चित्र (पाँच चित्र जीवन अध्ययन प्रश्न पत्र-I व II के पाँच चित्र रचनात्मक संयोजन) एवं 100 पृष्ठों की 1/4 इन्ची आकार की रेखांकन अभ्यास पुस्तिका होगी। अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास रेखांकन – चित्र, पशु, मानव आकृति, गली, दृश्यांकन इत्यादि के होंगे। जिन्हें पेन्सिल, पेन स्केच या जल रंग के द्वारा प्रस्तुत किया जावे। यह “सत्रीय कार्य प्रस्तुति” चित्रकला विभागाध्यक्ष के पास सम्बन्धित विषय प्राध्यापक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया जावेगा और विभागाध्यक्ष आंतरिक स्तर पर सम्बन्धित व्याख्याता की सहमति से अंक प्रदान करेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

सत्रीय कार्य प्रस्तुति विभाग के परीक्षा –परिणाम घोषित होने तक रखा जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षार्थियों को लौटा दिया जाएगा, यदि परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो माह बाद तक परीक्षार्थी सत्रीय कार्य प्रस्तुति लेने नहीं आयेगा तो उसका कार्य नष्ट कर दिया जायेगा।

सत्र के अध्ययन के लिए 10 कालांश प्रति सप्ताह होने चाहिए 4 कालांश सैद्धान्तिक अध्ययन के लिए 6 कालांश प्रायोगिक-अध्ययन के लिये एवं 1 कालांश सत्रीय कार्य प्रस्तुति बाह्य अध्ययन के लिये। प्रायोगिक परीक्षा सुविधा सम्पन्न केन्द्र पर आयोजित की जाएगी। बाह्य परीक्षक, आन्तरिक परीक्षक (जो सत्र में विषय प्रश्न पत्र का अध्यापक रहा होगा) के सहयोग से मूल्यांकन करेगा। प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र तथा सत्रीय कार्य प्रस्तुति का पृथक-पृथक मूल्यांकन होगा और इनमें प्रत्येक में उत्तीर्णक लाना अनिवार्य है। विभाग को सत्र में शैक्षणिक यात्रा अजन्ता-एलेरा, एलीफेन्टा, खजुराहो, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा अथवा ललित कला अध्ययन केन्द्रों के अध्ययन के दृष्टिकोण से आयोजित करनी चाहिए। प्रत्येक प्रायोगिक कला (स्केचिंग कक्षा में भी) के बेच में 12 छात्रों से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए।

B.A. Part III- 2024
DRAWING AND PAINTING

Note:- This syllabus is applicable from this academic year -2024-25

Scheme

Theory Paper I : Introductory Study of Major Movements of Western Art

Duration : 3 Hours Min. Pass Marks : 36 Max. Marks: 100

Practical Paper I A : Study from life (Full figure)

Duration: 5 Hours Min. Pass Marks : 14 Max. Marks : 40

OR

Practical Paper I B : Reproduction and Enlargement of Paintings

Duration: 5 Hours Min. Pass Marks : 14 Max. Marks : 40

Practical Paper II : Creative Composition

Duration: 5 Hours Min. Pass Marks : 14 Max. Marks : 40

Submission of Practical works

Min. Pass Marks : 08 Max. Marks:20

Total Pass Marks : 72 Total Max. Marks: 200

**Theory paper I- Introductory Study of Major Movements of
Western Art**

Duration 3 Hours Min. Pass Marks:36 Max. Marks:100

Scheme:

Note:- The question paper will contain three sections as under-

Section –A : One compulsory question with 10 Parts having 2 parts from each unit.

Short answer in 20 words for each part. Total marks :10

Section-B: 10 questions 2 questions from each unit,5questions to be attempted taking one from each unit .answer approximately in 250 words. Total marks 50

Section:- C 04 questions (question may have sub division) covering all units but not more than one question from each unit. Descriptive type answer in about 500 words.2questions to be attempted. Total marks : 40

Unit I

Pre-historic painting, Egypt, Cretan Art

Unit – II

Greco- Roman and Etruscan Art.

Unit – III

Byzantine Art, Romanasque Art and Gothic Art, Cimabue, Giotto

Unit – IV

Painting of Renaissance's Period, Raphael, Leonardo
DA Vinci, Michelangelo Mannerism.

Unit – V

Baroque Art-Caravaggio, Rubens, Rembrant,
Rococo Art- Watteau, Bucher
Famous Landscape Artist of 19th Century Turner and Canstable.

Practical Paper I A **Study from Life (Full figure)**

Max Marks :- 40

Min. Marks : 14

Size :- Half Imperial

Medium :- Water Colour & Oil Colour

Duration:- 5 Hours, 2 sittings of 2.30 hours, each with a break of 30 minutes.

Model :- Male or Female (20 to 60 years)

Model should be arranged against drapery background with simple folds. The study should represent a realistic image of model with proper handling of medium and technique. The drawing should be correct and the effect of light and shade must be considered.

OR

Practical Paper I B **Reproduction & Enlargement of Paintings**

Max Marks :- 40

Min. Marks :14

Size :-Half Imperial

Medium :- Water Colour or Oil Colour or Mix Media as of the reference painting.

Duration:- 5 Hours, 2 sittings of 2.30 hours, each with a break of 30 minutes.

Students will reproduce or enlarge the art work done by master artists. These works will be figurative works & will be done in Grid Method. The **reference** painting could be miniature or modern work of Art.

Note:-

Coloured zerox or scanned copies of **reference** art work along with details (size & medium) & instructions will be provided to each candidate.

Practical Paper II **Creative Composition**

Max Marks :- 40

Min. Marks :14

Size :-Half Imperial

Medium :- Water Colour or Oil Colour

Duration:- 5 Hours, 2 sittings of 2.30 hours, each with a break of 30 minutes.

Composition should be based on any subject related to life., its important events and the world around us. composition should be created with two or three human figures. Style of composition could be stylized, traditional or modern. Subject may cover festivals, important events from life (indoors & outdoors) like workers, travelers and group meetings.

NOTE:-

- a) The external examiner will decide five subjects. Students have to choose one out of these five subjects and compose it in a technique and style of his/her choice.
- b) Students have to complete a composition choosing anyone colour scheme.
- c) Students can use different texture to show the density in his/ her composition.

Submission of work

Min. Pass Marks: 08

Max. Marks :20

Each Candidate will have to submit the following works one month before the commencement of the annual Examination.

1. Ten plates of the work done (5 plates of life study full figure - practical paper **I A** or 5 plates of Reproduction & Enlargement of Painting – practical paper **I B** and five plates of Creative Composition practical paper II on ½ imp. Size paper).
2. A Sketch Book of not less than 100 Sketches, size ¼ Imp. Subject Human Figure, Animals, Lanes, Trees. Medium -ink, pencil and water colour.

Note: Submission work will be submitted to the Head of the Department of Drawing & Painting of the college one month before the commencement of Examination. The marks of the submission work will be awarded internally by the Head of the Department with the consent of the concerning teacher. In case of any dispute the decision of the HOD will be final. Submission Work will be retained till the declaration of result and one month thereafter. If not claimed, they will be destroyed. Candidate should pass in theory as well as in practical paper separately .

There should be minimum 10 periods for the regular study. (4 periods for theory and 6 for practical including 1 periods for sketching of one hour each). Practical examination will be conducted at the centres. An external examiner will examine the answer sheets in consultation with an internal examiner who is the subject teacher of the department of Drawing & Painting.

Practical Paper I & II will be evaluated separately. There will be no supplementary examination in practical paper I & II. It is compulsory to pass in every paper separately including submission of work..

The department should also arrange for an educational tour to ancient Art centres like Ajanta, Ellora, Elephanta, Khajuraho, National Art Gallery, New Delhi, and to fine Art institutions in other cities of the country. In each practical batch there should not be more than twelve students, also in sketching period.